

# Vijay Solvex Limited



Corporate Identification Number : L15142RJ1987PLC004232  
Regd. Office : Bhagwati Sadan, S.D. Marg, ALWAR - 301001  
Factory : Old Industrial Area, Itarana Road, ALWAR -301001

Date: November 14, 2020

To,  
**Bombay Stock Exchange Limited**  
Corporate Relationship Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street,  
**Mumbai-400 001.**

**Re: Company Code - 531069**

**Sub: Publication of Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020.**

Dear Sir/Madam,

In compliance of provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the newspaper copies of the Mint (English Daily) and Business Remedies (Hindi Daily) both dated 14<sup>th</sup> November, 2020, in which the Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020, have been published. The aforesaid results have been approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 13<sup>th</sup> November, 2020.

Please take the above information on your records.

Thanking You,

Yours Faithfully,  
For **Vijay Solvex Limited**

**(J.P. Lodha)**  
Company Secretary  
FCS: 4714



# GIFT A READING LIFE TO A CHILD THIS FESTIVAL SEASON

**FIRST PERSON**  
**ROHINI NILEKANI**



Early parent-child book reading can have positive impacts on the relationship too.

What is a good time to introduce a child to books? Different parents may have different answers. I found the right age to be six months. For both my children, I had cloth, plastic or board books about animals or very simple stories with repetitive words. I would show them the books, and slowly read them out. At that stage they were mostly interested in consuming the books rather literally, trying to taste them with their mouths. By eight months though, they would be eager for the books, actually picking up the ones they liked. By three years, my daughter was reading simple books to my infant son, who would gurgle happily as though he understood it all. It was their first bonding experience.

We had the same experience with my grandson. By six months, he was being read to at sleep time, a pile of books kept ready next to the bed. His favourites were the four board books published by Tulika Books, including *Dosa Amma Dosa*. He wouldn't wait even for a few seconds between books and would begin a mock cry as the last page of a book was read, as if to say, "Hurry up, I want the next one."

These are common experiences in many households around the world. Yet far too many families simply do not have access to good books for their children.

There are many reasons for this. Parents may not be readers themselves, for example. This would influence whether or not their children have books. Yet many parents who are not avid readers still want their children to read. They understand

the importance of having good stories that unleash a child's imagination, improve her vocabulary and of course, also keep her out of one's hair for a bit!

Yet books can be expensive, or impossible to find, or simply not be in the right language. Or they can be alienating, with stories and characters that are too unfamiliar, or culturally unapproachable.

Luckily, the past two decades have been extremely good for children's publishing in India. While the National Book Trust and the Children's Book Trust have been publishing good, affordable books for decades, many publishers have recently come into play, offering attractive books in several languages for India's 300 million children.

Pratham Books has been part of this journey. I co-founded Pratham Books in 2004 with the mission "A Book in Every Child's Hand". It was a non-profit born from the Pratham network which had helped thousands of children to become fluent readers. But there simply were not enough books in enough languages that were accessible and affordable, for them to practise their new skill. So we decided to become publishers ourselves. We saw

it as a societal mission, involving *samaaj*, *bazaar* and *sarkaar*, to influence the world of children's publishing, and to democratise the joy of reading.

Fortunately, we succeeded in quickly becoming India's largest children's publisher, innovating a new model to publish books simultaneously in up to 12 languages. We inched closer to our goals in 2008, when we put up our books online, under an open source creative commons licence. Suddenly, lots of books in many languages became available to parents, children and teachers, completely free. Today, the leadership team has taken this idea even further via our open source digital repository, StoryWeaver, with incredibly diverse books in dozens of languages, all free for children anytime, anywhere in the world.

What a marvellous opportunity this is for parents and teachers to introduce children to all kinds of books, without worrying about cost. Thanks to many new publishers as well as non-profits such as Room to Read and the International Children's Digital Library, Indian parents now have many reading experiences to choose from. They are empowered to give their children

perhaps the best gift of all—a reading life. There is much evidence to bulwark this statement. Research has linked all manner of benefits in life to reading.

A 2018 Ohio State University study looked at the relationship between children's vocabulary and reading in children younger than five years. The study found that children who are never read to, hear about 5,000 words, whereas those whose parents read them one book a day hear about 300,000 words before entering kindergarten.

Similarly, research has shown that parent-child book reading (PCBR) is effective at improving young children's language, literacy, brain and cognitive development. Reading to children during early childhood is also a strong predictor of children's brain development and performance in school.

There is one more study I can personally vouch for. Caitlin Canfield of Boston University reports that shared book reading at six months is associated with increases in observed and reported parental warmth and decreases in parenting stress at 18 months. These findings suggest that early parent-child book reading can have positive collateral impacts on the parent-child relationship over time. I could go on citing research. But the important takeaway is that there is no better time for parents to encourage reading in very young children.

Please buy books if you can. Download free books if you can't. Leave books lying around the house; get siblings to read to younger kids; ask children about the stories they read. Get as many kinds of books as you possibly can—books of different cultures, in different languages, with a range of illustration styles. In the festival season, let children feast on books.

*Rohini Nilekani is a writer and philanthropist. Her new book, The Hungry Little Sky Monster, is out now from Juggernaut Books.*

## CLIMATE CHANGE TRACKER

BIBEK BHATTACHARYA

THIS WEEK: Will the US change its climate change tune?



Joe Biden has a bold climate change agenda.

Now that Joe Biden has won the US presidential election, one of the key global issues is his administration's approach to climate change. The outgoing president, Donald Trump, is a notorious climate change denier, and in his four years in office, the participation of the US in the UN-led global attempt at climate change mitigation has been steadily curtailed. Indeed, on 4 November, the US formally left the 2015 Paris Climate Agreement, which seeks to limit global warming to within 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Biden had tweeted that the US would rejoin the day a new president takes oath in January.

The recently-concluded US presidential election was a landmark in that Biden placed climate policy at the centre of his campaign. Apart from rejoining the Paris agreement, he has promised to begin the transition of the American energy economy away from oil, to renewables and an emissions-free power sector by 2035. His climate plan, on which his campaign promised to spend \$2 trillion (around ₹150 trillion), includes bringing back and strengthening the environmental safeguards jettisoned by Trump, upgrading millions of buildings to the highest possible energy-efficiency levels, manufacturing clean vehicles, and setting up an office of environmental and climate justice.

However, a Biden administration's climate plans will have to contend with a Republican-controlled Senate and a conservative US Supreme Court. Republican senators are broadly against any kind of climate change legislation or energy reform. Meanwhile, conservative justice Amy Coney Barrett's categorisation of the climate crisis as a "very contentious matter of public debate" during a hearing on her Supreme Court nomination has stoked fears that the court may block a Democrat administration's plans on bold climate action.

Here is why the US matters in the global fight against climate change. Along with China, it is the biggest emitter of greenhouse gas (GHG) emissions. China recently announced that it plans to go carbon neutral by 2060. According to Berlin-based institute Climate Analytics' Climate Action Tracker (CAT), if both China and the US can do this, that would be enough to limit global heating to 2.3-2.4 degrees Celsius above pre-industrial levels by 2100. Simply put, the 1.5-2 degrees Celsius aim becomes more realistic with a US that honours the Paris agreement.

Follow the column with #MintClimateTracker. Scan the QR code to hear the first two seasons of the Mint Climate Change Tracker podcast.



**VIJAY SOLVEX LIMITED**  
Corporate Identity Number: L15142RJ1987PLC004232  
Regd. Office : Bhagwati Sadan, Swami Dayanand Marg, Alwar - 301001 (Raj.)  
Phone No. 0144-2332358, Fax No. 0144-2332320  
website: www.vijaysolvex.com, email id: cs\_lodha@dataoils.com

**EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2020**  
(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Corresponding Quarter ended
		30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	
1	Revenue from operations	46501.62	91972.29	33830.71
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	1383.19	2824.65	555.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	1440.45	2869.93	557.93
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates	1091.55	2161.89	486.32
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive Income (after Tax)]	1520.98	2721.95	509.39
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	320.13	320.13	320.13
7	Reserves excluding Revaluation Reserve (As per Audited Balance Sheet as at 31st March, 2020)		15217.88	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised) (in Rs.)			
	a) Basic :	34.10	67.53	15.19
	b) Diluted :	34.10	67.53	15.19

**Notes:**  
1 Additional information on Unaudited Standalone financial results is as follows:-  
(Rs. in Lacs)

Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Corresponding Quarter ended
	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	
Revenue from operations	46501.62	91972.29	33830.71
Profit Before tax	1383.19	2824.65	555.21
Profit after tax	1034.29	2116.61	483.60

2 The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 13-11-2020.  
3 The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) (as amended time to time) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.  
4 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.vijaysolvex.com).

For & on behalf of the Board  
**Vijay Solvex Limited**  
sd/-  
(VIJAY DATA)  
Managing Director  
DIN : 00286492

Place : ALWAR  
Dated : 13.11.2020

**Atmanirbhar Bharat through Green Energy**

**IREDA ENERGY FOR EVER**

Up by 11% Total Income from Operations  
Up by 69% Profit After Tax  
\*H1'20-21 Vs H1'19-20

**Limited Review of Unaudited Financial Results as on 30.09.2020**  
(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Half Year Ended	Half Year Ended	Year Ended
		30.09.2020 (Reviewed)	30.09.2019 (Reviewed)	31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations	1,284.94	1,155.24	2,372.38
2.	Net Profit (+)/Loss (-) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	331.31	278.31	241.11
3.	Net Profit (+)/Loss (-) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	331.31	278.31	241.11
4.	Net Profit (+)/Loss (-) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	276.58	163.27	214.55
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	170.13	268.86	563.93
6.	Paid-up equity share capital	784.60	784.60	784.60
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	1,960.43	1,990.86	1,736.72
8.	Networth	2,745.03	2,775.46	2,521.32
9.	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	22,905.04	19,860.35	21,853.55
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
11.	Debt Equity Ratio	8.34	7.16	8.67
12.	Earnings Per Share (F.V. of Rs. 10/- each) (Annualised in Rs.)			
	1. Basic	7.05	4.16	2.73
	2. Diluted	7.05	4.16	2.73
13.	Capital Redemption Reserve	-	-	-
14.	Debenture Redemption Reserve	282.25	235.96	259.10

**Notes:**  
a) The financial statements have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder.  
b) As required under SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the results have been prepared on the basis of format contained in Division III of Schedule III to Companies Act, 2013 notified by MCA on 11.10.2018 and the corresponding figures for the previous half year ended 30.09.2019 have been stated as per the then reviewed and published financials.  
c) The above working results have been viewed and recommended by the Audit Committee of Directors and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 12.11.2020. The unaudited working results for the half year ended 30.09.2020 have been subjected to Limited Review by Statutory Auditors - M/s DSP & Associates, Chartered Accountants.  
d) Impairment allowance on loan assets is provided as per the board approved ECL methodology and calculations done by an independent agency alongwith management outlays wherever necessary.

Particulars	As at 30.09.2020 - (Rs. in Crore)
Credit impaired loan assets	2,240.79
Impairment allowance maintained	841.98
Impairment allowance coverage (%)	37.60 %

e) Cumulative impairment allowance (including Standard Loan) stands at Rs. 1,234.65 Crore as at 30.09.2020.  
f) In accordance with the guidelines issued by RBI dated, March 27, 2020, April 17, 2020 and May 23, 2020 relating to COVID-19 Regulatory Package, the Company has granted moratorium on the payment of instalments and/ or interest, as applicable falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to the eligible borrowers. For the purpose of asset classification on all such accounts, the number of days past due as on September 30, 2020 excludes the moratorium period to the respective borrower.  
g) The Hon'ble Supreme Court of India, in a public interest litigation, vide an interim order dated September 3, 2020, has directed that accounts which were not declared Non-Performing Assets (NPA) till 31 August 2020 shall not be declared as NPA till further orders. On the basis of the said interim order, the company has not classified any borrowers as NPA from August 31, 2020 as per RBI Prudential norms.  
h) The Company holds provision as at 30.09.2020 against the potential impact of COVID-19 based on the information available as on date. The COVID-19 global pandemic continues to spread across the globe and in India. The extent to which COVID-19 pandemic will impact the Company's provision on assets, liquidity, Borrowing position and financial health is dependent on the future developments/ events which are highly uncertain. The Company has been duly servicing its debt obligations, maintains a healthy capital adequacy ratio and has adequate capital and financial resources to run its business. However the Company will continue to use the digital technology to closely monitor any material changes to future economic conditions.  
i) The company's primary business is to provide finance for Renewable Energy & Energy Efficiency projects and accordingly, there are no reportable segments as per IndAS 108 Operating Segments.  
j) The above is an extract of the detailed format of Half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of the Company and Bombay Stock Exchange.  
k) For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchanges.

**INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED**  
(A Government of India Enterprise)  
Registered Office: 1st Floor, Core-4A, East Court, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi - 110003  
Tel: 011-24682206-19 | Fax: 011-24682202  
Corporate Office: 3rd Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066  
Tel: 011-26717400-12 | Fax: 011-26717416 | Website: www.ireda.in  
Follow us on: @IREDALimited @IREDALtd @iredaofficial

Sd/-  
Pradip Kumar Das  
Chairman & Managing Director  
DIN-07448576

Date : 12.11.2020  
Place : New Delhi



BR

सम्पादकीय

## दीपावली के त्योहारी सीजन में जागरूक रहकर करें खरीददारी

दीपावली के त्योहारी सीजन में कोरोना महामारी को नजर अन्दाज कर लोग इस समय जिस तरह से खरीददारी कर रहे हैं, उससे कोरोना के कैसेज बढ़ रहे हैं। लोगों को इस वक्त जागरूक रहकर और गाइड लाइन की पालना करते हुए खरीददारी करनी होगी। कोरोना का हराना है, तो त्योहारी सीजन में मास्क लगाएं और उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस समय बाजार में खरीददारी के लिए भीड़ उमड़ रही है, पर कई लोग इसे नजर अन्दाज भी कर रहे हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो कोरोना के ज्यादा मरीज बढ़ जाएंगे और इसे सम्भाल पाना प्रशासन के लिए मुश्किल भरा होगा।



पुनीत जैन

त्योहारी सीजन में राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के बुधवार को रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बुधवार को ही महीनेभर बाद यह फिर दो हजार को पार कर 2080 कोरोना केसेज दर्ज हुए हैं। वहीं 11 नई मौतें दर्ज हुई हैं।

सर्वाधिक 450 नए मरीज जयपुर, 310 जोधपुर, 175 बीकानेर, 141 अजमेर, 115 अलवर और 113 कोटा जिले में मिले हैं। अगर ऐसे ही हालत चलते रहे तो कोरोना संक्रमितों को संभालना कठिन हो जाएगा। देश की विभिन्न राज्यों की सरकारों के लिए इसके लिए व्यवस्था करना भी मुश्किलभरा हो जाएगा, कोई भी सरकारी व्यवस्था जन सहयोग के बिना साकार रूप नहीं ले सकती। प्रशासन ने भी इन दिनों खरीददारी की ढील देते हुए लोगों को छूट दे रखी है। पर लोगों को समझदारी से खरीददारी कर त्योहारी सीजन को मनाना है, तभी यह त्योहारी सीजन का उत्साह सार्थक सिद्ध हो पाएगा। जैसे-जैसे सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, कोरोना के केसेज बढ़ने की संभावना है। पिछले दिनों ही टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पाल ने भी चेतावनी दी है कि सर्दी के कारण कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है, इसलिए अब बहुत सावधानी की जरूरत है। एक ओर जल्द कोरोना वैक्सीन आने का दावा किया जा रहा है, पर जब तक यह नहीं आ जाती तब तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

पूरा विश्व कोरोना के लिए वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहा है, जगह-जगह ट्रायल भी की जा रही है, पर वैक्सीन कितनी सफल हो पाएगी यह तो वक्त ही बताएगा? पर अभी तो सबसे बड़ी वैक्सीन माक्स और सोशल डिस्टिंग बनाए रखना है। लोगों को भी त्योहारी सीजन में मास्क और सामाजिक दूरी बनाकर रखकर ही खरीददारी करनी होगी। सरकार ने आतिशबाजी पर रोक लगाकर अस्थमा रोगियों को तो राहत दी है, पर अब लोगों का फर्ज है कि सरकार की सभी गाइड लाइन की पालना करते हुए त्योहारी सीजन में खरीददारी कर परिवार में उल्लास भर दें।

## हमें उजाले बाहर ही नहीं, भीतर भी करने होंगे

ललित गर्ग

दीपावली एक लौकिक पर्व ही नहीं, आध्यात्मिक पर्व है। यह केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं, बल्कि भीतरी अंधकार को मिटाने का पर्व भी है। हम भीतर

में धर्म का दीप जलाकर मोह, माया, लोक और मूर्च्छा के अंधकार को दूर करें, मन को मांजे एवं आत्मा को उजाले तभी दीपावली मनाने की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होगी। दीपावली

के मौके पर सभी आमतौर से अपने घरों की साफ-सफाई, साज-सज्जा और उसे सँवारने-निखारने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार अगर भीतर चेतना के आँगन पर जमे कर्म के कचरे को बुहारकर साफ किया जाए, उसे संयम से सजाने-सँवारने का प्रयास किया जाए और उसमें आत्मा रूपी दीपक की अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर दिया जाए तो मनुष्य शश्वत सुख, शांति एवं आनंद को प्राप्त हो सकता है। तभी कोरोना रूपी महामारी के घावों को भर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना महामारी को परास्त करने के लिये दीये जलवाये थे, इस बार की दीपावली समूची दुनिया से कोरोनारूपी अंधकार को मिटाने का माध्यम बनेगी। हम हर वर्ष दीपावली मनाते हैं। हर घर, हर आंगन, हर बस्ती, हर गाँव में सबकुछ रोशनी से जगमगा जाया करता है। आदमी मिट्टी के दीप में सेह की बाती और

परोपकार का तेल डालकर उसे जलाते हुए भारतीय संस्कृति को गौरव और सम्मान देता है,

JAIN MARMO INDUSTRIES LIMITED				
Regd. Office : 47/10, Kiran Path, Mansarovar, Jaipur-302020				
Phone No. + 91-294 2441666, 2441777, Fax: + 91-294 2440561				
Website: www.jainmarmo.com EMAIL: jainmarmo_ind@yahoo.com, CIN : L14101RU1981PLC002419				
UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER 2020				
Particulars	Rs. in Lakhs		Correspondence	
	Quarter Ended 30th Sept. 2020 (Un-Audited)	Half year ended 30th September 2020 (Un-Audited)	Quarter ended 30th September 2019 (Un-audited)	
Total income from operations (net)	28.41	35.27	58.35	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-11.90	-32.83	2.22	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-11.90	-32.83	2.22	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-9.84	-25.50	1.54	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-9.84	-25.50	1.54	
Equity Share Capital	313.06	313.06	313.06	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic and Diluted:	-0.31	0.04	0.05	

(A) The above Financial Results for the quarter and half year ended September, 30 2020 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 12th 2020

Note: - The above is an extract of the detailed format of quarterly and half yearly results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Un-audited results for the quarter and half year ended 30.09.2020 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company's website (www.jainmarmo.com)

On behalf of the Board for Jain Marmo Industries Limited  
Sd/-  
Sudharth Jain Managing Director  
DIN-01275806

Place: Udaipur  
Date: 12.11.2020

सौर ऊर्जा अपनाएं, राजस्थान के अपने पैनाल लगावाएं।

IMA Mono Perc Poly Solar Battery

Insolation Energy Solar Panels & Batteries [Jaipur]

[M] : +91-9116122144  
Toll Free No. 1800 212 1806  
info@insolationenergy.in, www.insolationenergy.in

क्योंकि दीया भले मिट्टी का हो मगर वह हमारे जीने का आदर्श है, हमारे जीवन की दिशा है, संस्कारों की सीख है, संकल्प की प्रेरणा है और लक्ष्य तक पहुँचने का माध्यम है।

## घर बैठे प्रोफेशनल ऑनलाइन अकाउंटिंग सीखने का सुनहरा मौका

Tally, Busy पर प्रोफेशनल के साथ प्रैक्टिकली अकाउंटिंग, जीएसटी & आईटीआर रिटर्न सीखिए। मात्र 1999/- में (जॉब ओरिएण्टेड कोर्स के साथ)

अकाउंटिंग जॉब्स / मार्केटिंग / टैलीकॉलर हेतु मेल, फीमेल की आवश्यकता। Experience Accountant Available

## विजयवर्गीय अकाउंटिंग एकेडमी

क्लासेज 9509403549 जॉब्स 9509403550

हेड ऑफिस :- राजापार्क

शाखाएँ

प्रतापनगर, मालवीय नगर, मानसरोवर सिटी साईड, वैशाली नगर, विद्याधर नगर, टोंक रोड गोपालपुरा, रामगढ़ मोड़, आमेर, झोटावाड़ा, सीकर रोड़ चौमू, बस्सी, कानोता व समस्त राजस्थान में

## NR नेहा रिसोर्सेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : सी/ओ बालाजी ऑयल मिल, 117, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर

सिन: L51909RJ1987PLC018226, फोन: 0141-2340609 (राशि रुपये में)

ई-मेल : cs@balaji-castings.com वेबसाइट: www.neharesources.com

30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार

क्र. सं.	विवरण	स्मान तिमाही (अनऑडिटेड)	स्मान तिमाही (अनऑडिटेड)	स्मान तिमाही (अनऑडिटेड)	स्मान अर्धवार्षिक (अनऑडिटेड)	स्मान अर्धवार्षिक (अनऑडिटेड)
1.	प्रकारों से कुल आय	48522	45263	55903	93785	19993
2.	अधी के लिए कुल खर्च (एसी/कर, अस्थायी और या अस्थायी खर्च से पूर्व)	(20925)	(57609)	(88205)	(78534)	(226675)
3.	कर से पहले की अधी के लिए कुल खर्च (एसी/कर, अस्थायी और अस्थायी खर्च से पूर्व)	(20925)	(57609)	(88205)	(78534)	(226675)
4.	कर के बाद अधी के लिए कुल खर्च (एसी/कर, अस्थायी और अस्थायी खर्च के बाद)	(20925)	(57609)	(88205)	(78534)	(226675)
5.	अधी के लिए कुल रिस्तर आय (अधी/कर के बाद) के लिए रजिस्ट्रार (एसी/कर और आय रिस्तर आय (कर के बाद)	(20925)	(57609)	(88205)	(78534)	(226675)
6.	इंफिन्टी सेयर पूंजी (रु. 10/- परतक का अडिटेड न्यून)	40004000	40004000	40004000	40004000	40004000
7.	अडिटेड (अडिटेड मुल्यांकन को छोड़कर)	-	-	-	-	-
8.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10/- परतक) (वार्शिकीकरण नहीं)	(0.01)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.06)

नोटः  
1. ये परिणाम अंशकालिक तैयारी द्वारा तैयार किए गए हैं और वे केवल तिमाही 12 नवम्बर 2020 में तैयार हैं।  
2. उक्त परिणाम भारतीय प्रभिकता एवं विनिर्देश बोर्ड (यूनिफाइड अकाउंटिंग एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनिर्देश, 2015 के नियम 33 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।  
3. उक्त परिणाम 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार हैं।  
4. उक्त परिणाम 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार हैं।  
5. उक्त परिणाम 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार हैं।  
6. उक्त परिणाम 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार हैं।  
7. उक्त परिणाम 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार हैं।  
8. उक्त परिणाम 2020 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का सार हैं।

## VIJAY SOLVEX LIMITED

Corporate Identity Number: L15142RJ1987PLC004232  
Regd. Office : Bhagwati Sadan, Swami Dayanand Marg, Alwar - 301001 (Raj.)  
Phone No. 0144-2332358, Fax No. 0144-2332320  
website: www.vijaysolvex.com, email id: cs\_lodha@dataoils.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER, 2020 (Rs. in Laacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Corresponding
		30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2019 (Unaudited)
1	Revenue from operations	46501.62	91972.29	33830.71
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	1383.19	2824.65	555.21
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates)	1440.45	2869.93	557.93
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional items and Share of Profit/(Loss) of Associates	1091.55	2161.89	486.32
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other Comprehensive income (after Tax))	1520.98	2721.95	509.39
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	320.13	320.13	320.13
7	Reserves excluding Revaluation Reserve (As per Audited Balance Sheet as at 31st March, 2020)	-	15217.88	-
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualised) (in Rs.)			
	a) Basic :	34.10	67.53	15.19
	b) Diluted :	34.10	67.53	15.19

Notes:  
1. Additional information on Unaudited Standalone financial results is as follows:- (Rs. in Laacs)

Particulars	Quarter ended	Half Year ended	Corresponding
	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)	Quarter ended 30-09-2019 (Unaudited)
Revenue from operations	46501.62	91972.29	33830.71
Profit Before tax	1383.19	2824.65	555.21
Profit after tax	1034.29	2116.61	483.60

2. The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2020 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 13-11-2020.  
3. The results have been prepared in accordance with the Companies ( Indian Accounting Standards ) Rules, 2015 (Ind AS) (as amended time to time) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.  
4. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30 September, 2020 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI ( Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (www.vijaysolvex.com).

For & on behalf of the Board  
Vijay Solvex Limited  
sd/-  
(VIJAY DATA)  
Managing Director  
DIN : 00286492  
Place : ALWAR  
Dated : 13.11.2020

## जयपुर सिटी के पास नाई की थड़ी से मात्र 5 मिनट की दूरी (चैनपुरा)



100 वर्गगज प्लॉट की 3000/- रुपये की किश्त 60 महीने तक (बुकिंग राशि 3500/- रुपये की)

50 वर्गगज प्लॉट की 1500/- रुपये की किश्त 60 महीने तक (बुकिंग राशि 2500/- रुपये की)

प्लॉट साइज 50, 66.66, 100 वर्गगज

सुविधाएं  
1. स्कूल, कॉलेज व बाजार के पास  
2. रोड, बिजली, पानी की सुविधा  
3. पूर्ण विकसित आवासीय कॉलोनी

जॉब के लिए युवक-युवतियों की आवश्यकता

बुकिंग करने के लिए सम्पर्क करें:-

## सिल्वर विजन कॉलोनाईजर्स

1201, निवाई महंत का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर-302006  
सम्पर्क सूत्र : 9314444339, 9783377129, 8905105164  
सिल्वर विजन का सपना, सबका घर हो अपना

Since 1976  
A Trusted Brand of Years  
**Rama's**  
A Brand of M.K.Tailoring House

FESTIVE SEASON NEW ARRIVAL

**DESIGNER KURTIS**  
MANUFACTURER | WHOLESALER  
RETAILER  
SARAOGI MANSION | GT CENTRAL  
VAISHALI | MANSAROVAR | PRATAP NAGAR

**RESORT**  
DESTINATION WEDDING & ALL TYPE PARTIES  
EVENT, FOOD & CATERING FACILITIES  
WEDDING | ANNIVERSARY  
BIRTHDAY PARTY | KITTY PARTY  
Kothun, Newai, Main Tonk Road  
Contact : 9414265911, 9261263628